

## **\*प्रेस विज्ञप्ति\***

### **\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज\***

**\*दिनांक- अक्टूबर 16, 2020\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **\*114 वाहनों का चालान, 30 वाहनों से कुल 22000/-रूपया शमन शुल्क वसूल\*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

**\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा **\*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 34\*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व **\*मास्क न लगाने वाले कुल- 164 व्यक्तियों से 16400/- रुपये शमन शुल्क\*** वसुला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **\*कुल- 09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*आबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त रवि सिंह पुत्र वंशीधर नि0 कुवनी घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0- 205/20 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त उमेश पुत्र शंकर नि0 कोहरगड्डी बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0- 125/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*कस्टम अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1. विकास साहनी पुत्र सुभाष 2. रफीक पुत्र मुस्तफा नि0 गण खनुवा थाना सोनौली के कब्जे से 54 लीटर थिनर, 42 ली0 लकडी का पेन्ट व विभिन्न वाहनों के पार्टस् एवं 02 अदद् साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 3/11 कस्टम अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्याय0 प्रेषित किया गया।

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1. इन्द्रजीत यादव पुत्र श्रीपत नि0 एकडंगवा थाना कोल्हुई मह0 के कब्जे से 70 किलोग्राम मटर कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 3/11 कस्टम अधिनियम\*\*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्याय0 प्रेषित किया गया। 2. बाबूलाल चौरसिया पुत्र श्रीपत 3. सुरेन्द्र चौरसिया पुत्र रामअवध नि0 गण राजमंदिर कला थाना कोल्हुई मह0 के कब्जे से 190 किलोग्राम मटर बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 3/11 कस्टम अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्याय0 प्रेषित किया गया।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **\*कुल- 06 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।**

**\*जनपद में 15/16-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 11 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***